



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 6 फरवरी, 2025

माघ 17, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 16/79-वि-1-2025-2-क-2-2025

लखनऊ, 6 फरवरी, 2025

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2025) जिससे चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2025

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2025)

[भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

1-(1) यह अध्यादेश संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
30 सन् 1983 में
नयी धारा 12-क
का बढ़ाया जाना

2- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 में, धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

“निदेशक की
सेवा की अवधि

12-क. (1) निदेशक अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु पैंसठ वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेगा;

(2) अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी निदेशक, जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, को कुलाध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधि प्रदान की जा सकती है:

परन्तु यह कि निदेशक कुलाध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।”

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 16(2)/LXXIX-V-1-2025-2-ka-2-2025

Dated Lucknow, February 6, 2025

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Sanjay Gandhi Snatakottar Ayurvigyan Sansthan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2025 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 2 of 2025) promulgated by the Governor. The Chikitsa Shiksha Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE SANJAY GANDHI POST-GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL
SCIENCES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

(U. P. Ordinance No. 2 of 2025)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

*further to amend the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences
Act, 1983.*

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and
commencement

1.(1) This Ordinance may be called the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences (Amendment) Ordinance, 2025.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983, Insertion of new after section 12, the following new section shall be *inserted*, namely:-

section 12-A in
U.P. Act No.
30 of 1983

12-A. (1) The Director shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier;

"Tenure of
Service of
Director (2) Notwithstanding anything to the contrary in the Act, a Director who has not attained the age of sixty-five years may be granted an additional tenure not exceeding three years, by the Visitor:

Provided that the Director may by writing under his hand addressed to the Visitor resign from his office, and shall cease to hold his office upon the acceptance by the Visitor of such resignation. "

ANANDIBEN PATEL
*Governor,
Uttar Pradesh.*

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 487 राजपत्र-2025-(1258)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 184 सा० विधायी-2025-(1259)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।